

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2631]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 25, 2013/अग्रहायण 4, 1935

No. 2631]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 25, 2013/AGRAHAYANA 4, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2013

का.आ. 3472(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसका पञ्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 506 (अ), तारीख 5 मार्च, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के सीकर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के 298.050 कि.मी. से 341.047 कि.मी. (रींगस—सीकर सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुसूचना, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 12 मार्च, 2013 को "राजस्थान पत्रिका" और "दि टाइम्स ऑफ इण्डिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के सीकर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के 298.050 कि.मी. से 341.047 कि.मी. तक (रींगस-सीकर खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में/वर्ग मी. में)	भूस्वामियों/ हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सीकर	दांतारामगढ	(1) विजयनगर	1182	निजी	कृषि बारानी-3	0.536	बनवारी लाल बिजारणिया पुत्र महादेवराम बिजारणिया हि. 1/2 जाति जाट निवासी छोटा पाना की ढाणी तन पलसाना, प्रहलाद राय पुत्र बसेसर लाल जाति ब्राह्मण हि. 1/2 साकिन देह खातेदार।
				1183	निजी	कृषि चाही-4	0.575	रामपाल पुत्र तेजा जाति कुम्हार साकिन देह खातेदार
				1199	निजी	कृषि चाही-4	0.302	
				1201	निजी	कृषि चाही-4	0.191	
				1206	निजी	कृषि बारानी-3	0.9619	गोपीराम पुत्र गुल्लाराम हि. 1/6, बनवारी सांवरमल पि. गुल्लाराम हि. 2/3, ग्यारसी पुत्री गुल्लाराम हि. 1/6 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार
			(2) पलसाना	1162	निजी	कृषि बारानी-3	0.577	घीसा राम पुत्र गुल्लाराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार
				1163/1	निजी	कृषि बारानी-3	0.466	श्रीराम पुत्र बोदूराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार
				1163/2	निजी	कृषि बारानी-3	0.466	पूर्ण कंवर पत्नि रणजीत सिंह हि. 3/4 जाति राजपूत सा. मदनी (मंढा) पुष्प कंवर पत्नि गजेन्द्र सिंह हि. 1/4 जाति राजपूत सा. देह खातेदार
				1164/2	निजी	कृषि बारानी-3	0.043	
				1159	निजी	कृषि बारानी-2	0.366	घीसा गोपी पि. हणमान जाति जाट सा. देह हि.ब. खातेदार
				1116	निजी	अकृषि संस्थानिक	1.615	सांवरमल सिंहानिया मेमोरियल ट्रस्ट जरिये ट्रस्टी श्री दिलीप कुमार पुत्र सांवरमल सिंहानिया सा. बी-1 शास्त्री नगर जयपुर खातेदार
				1124	निजी	अकृषि संस्थानिक	0.16	सांवरमल सिंहानिया मेमोरियल ट्रस्ट जरिये ट्रस्टी संदीप कुमार पुत्र श्रवण कुमार अग्रवाल जाति महाजन सा. ओमवाली मोहल्ला मदनगंज किशनगढ
				1097	निजी	अकृषि संस्थानिक	1.236	
				1091	निजी	अकृषि संस्थानिक	0.135	
				1095	निजी	अकृषि संस्थानिक	0.535	
				1092	निजी	अकृषि संस्थानिक	0.333	
				1083	निजी	कृषि चाही-4	0.105	मंजू देवी धर्म पत्नि केशर देव जाति जाट सा. अखैपुरा खातेदार।
				1082	निजी	कृषि चाही-4	0.272	घीसू सिंह पुत्र राम सिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार
				1080	निजी	कृषि	0.12	मूलचंद भागीरथ पि. रूपा जाति

						चाही-4		जाट सा. अखैपुरा खातेदार
				1075	निजी	कृषि बारानी-1	0.135	घनश्याम प्रसाद अग्रवाल पुत्र बैजनाथ अग्रवाल जाति महाजन निवासी अलीपुर रोड़, कोलकाता (प.ब.)
				1093/2	निजी	कृषि बारानी-3	0.08	श्याम सुन्दर पुत्र रामगोपाल जाति जांगिड़ सा. रानोली खातेदार।
				1093/ 5205	निजी	अकृषि गौ.मु. आबादी	0.1	सुन्दर कुमार पुत्र राधेश्याम हि. 223/2500 जाति सोनी सा. सीकर इन्द्रलाल पुत्र राधेश्याम हि. 223/2500 जाति सोनी सा. सीकर सुभाष पुत्र मामराज हि. 223/2500 जाति सोनी सा. रैवासा रजत पुत्र सत्यनारायण नाबालिग जरिए संरक्षक पिता स्वयं हि. 223/2500 सोनी सा. सीकर, बेबी कंवर बेवा रुघनाथ सिंह, सुलतान सिंह पुत्र रुघनाथ सिंह मीनू कंवर पुत्री रुघनाथ सिंह हि.व हि. 1608/2500 जाति राजपूत सा. देह खातेदार
				1079	निजी	कृषि चाही-4	0.678	मंजू देवी धर्म पत्नि केशर देव जाति जाट सा. अखैपुरा खातेदार।
				1077	निजी	कृषि चाही-4	0.737	मूलचंद भागीरथ पि. रूपा जाति जाट सा. अखैपुरा खातेदार
				1076	निजी	कृषि बारानी-1	0.487	घनश्याम प्रसाद अग्रवाल पुत्र बैजनाथ अग्रवाल जाति महाजन निवासी अलीपुर रोड़, कोलकाता (प.ब.)
				1098/2	निजी	अकृषि संस्थानिक	0.056	सांवरमल सिंहानिया मेमोरियल ट्रस्ट जरिये ट्रस्टी संदीप कुमार पुत्र श्रवण कुमार अग्रवाल जाति महाजन सा. ओमवाली मोहल्ला मदनगंज किशनगढ़
				1111	निजी	कृषि बारानी-2	0.011	काना पुत्र घीसा हि. 1/4, बलदेव, श्रवण, सांवर मल पि. कजोड़ हि. 1/4 जाति जाट, श्री राम पुत्र बोदू हि. 1/2 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार
				1110	निजी	कृषि बारानी-2	0.105	
				1109	निजी	कृषि बारानी-3	0.255	लच्छा राम पुत्र मांगु राम जाति बलाई निवासी बाज्यावास खातेदार।
				1085	निजी	कृषि बारानी-1	0.005	रामलाल पुत्र गौरी शंकर हि. 1/2 कमला देवी बेवा जगदीश प्रसाद, हरी प्रसाद ओमप्रकाश, कैलाश पि. जगदीश प्रसाद हि. ब. हि. 1/3 विनोद पुत्र जगदीश प्रसाद, संतरा पुत्री जगदीश प्रसाद हि. 1/6 हि. ब. जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार
कुल योग							11.6439	

[फा. सं. भाराराप्रा/एलए/आरओजे/पीआईयू-रींगस/एनएच-11/2013]

माया प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2013

S.O. 3472(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 506 (E), dated the 05th March, 2013 Published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedules annexed to the said notification for building (widening/four-laning,etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 11 on the stretch of land from Km. 298.050 to Km. 341.047 (Reengus –Sikar section) in District Sikar in the State of Rajasthan;

And whereas the substance of the said notification has been published in the "Rajasthan Patrika" and the "The Times of India" both dated the 12th March, 2013, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.298.050 to Km. 341.047 (Reengus-Sikar Section) on the National Highway No.11 in the State of Rajasthan.

Serial number	Name of the district	Name of taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area in hectares	Name of the land owner/Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sikar	Danta Ramgarh	(1) Vijay Nagar	1182	Private	Agriculture Barani - 3	0.536	Banwarilal Bijarnia S/o Mahadevram Bijarnia Share 1/2 caste Jat R/o Chhota Pana Ki Dhani Palsana, Prahalad Rai S/o Basesar Lal cast Brahamin share 1/2 Sakin Deh Khatedar.
				1183	Private	Agriculture Chai - 4	0.575	Rampal S/o Teja caste Kumhar Sakin Deh Khatedar.
				1199	Private	Agriculture Chai - 4	0.302	
				1201	Private	Agriculture Chai - 4	0.191	
				1206	Private	Agriculture Barani - 3	0.9619	Gopi Ram S/o Gulla Ram share 1/6, Bawari Sanwarmal S/o Gull Ram share 2/3, Gyarsi D/o Gullaram share 1/6 caste Kumhar Sakin Deh Khatedar.
			(2) Palsana	1162	Private	Agriculture Barani - 3	0.577	Ghinsa Ram S/o Gulla Ram caste Kumhar Sakin Deh Khatedar.
				1163/1	Private	Agriculture Barani - 3	0.466	Shree Ram S/o Boduram caste Kumhar Sakin Deh Khatedar.
				1163/2	Private	Agriculture Barani - 3	0.466	Poorn Kanwar W/o Ranjeet Singh share 3/4 caste Rajpoot

				1164/2	Private	Agriculture Barani - 4	0.043	Sakin Madni (Mandha), Pushp Kanwar W/o Gajendra Singh share 1/4 caste Rajpoot sakin Deh Khatedar.
				1159	Private	Agriculture Barani - 2	0.366	Gheesa Gopi S/o Hanman caste Jat sakin Deh share equal Katedar
				1116	Private	Non-Agriculture Sansthanik	1.615	Sanawarmal Singhania Memorial Trust Jariye Trustee Shree Dilip Kumar S/o Sanwarmal Singhania Sakin B-1, Shastri Nagar Jaipur Khatedar.
				1124	Private	Non-Agriculture Sansthanik	0.16	Sanawarmal Singhania Memorial Trust Jariye Trustee Sandeep Kumar S/o Shrawan Kumar Agarwal caste Mahajan Sakin Omwali Mohalla Madanganj, Kishangarh.
				1097	Private	Non-Agriculture Sansthanik	1.236	
				1091	Private	Non-Agriculture Sansthanik	0.135	
				1095	Private	Non-Agriculture Sansthanik	0.535	
				1092	Private	Non-Agriculture Sansthanik	0.333	
				1083	Private	Agriculture Chai - 4	0.105	Manju Devi W/o Keshardev caste Jat Sakin Akhaipura Khatedar.
				1082	Private	Agriculture Chai - 4	0.272	Gheesu Singh S/o Ram Singh caste Rajpoot sakin Deh Khatedar.
				1080	Private	Agriculture Chai - 4	0.12	Moolchand Bhagirath S/o Roopa caste Jat Sakin Akhaipura Khatedar.
				1075	Private	Agriculture Barani - 1	0.135	Ghanshayam Prasad Agarwal S/o Baijnaath Agarwal Cast Mahajan R/o Alipur Road, Kolkatta (W.B.).
				1093/2	Private	Agriculture Barani - 3	0.08	Shayam Sundar S/o Ram Gopal caste Jangid sakin Ranoli Khatedar.
				1093/5205	Private	Non-Agriculture Garir Mumkin Abadi	0.1	Sundar Kumar S/o Radheshayam share 223/2500 caste Soni Sakin Sikar Indralal S/o Radheshayam share 223/2500 caste Soni Sakin Sikar Subhash S/o Mamraj share 223/2500 caste Soni Sakin Rewasa Rajat S/o Satnarayan Nabalig Jariye Sanrakshak Father Self share 223/2500 caste soni Sakin Sikar Baby Kanwar W/o Rughnath Singh, Suntan Singh S/o Rughnath Singh, Meenu Kanwar D/o Rughnath Singh share 1608/2500 caste Rajpoot sakin Deh Khatedar.

				1079	Private	Agriculture Chai - 4	0.678	Manju Devi W/o Keshardev caste Jat Sakin Akhaipura Khatedar.
				1077	Private	Agriculture Chai - 4	0.737	Moolchand Bhagirath S/o Roopa caste Jat Sakin Akhaipura Khatedar.
				1076	Private	Agriculture Barani - 1	0.487	Ghanshayam Prasad Agarwal S/o Baijnaath Agarwal Cast Mahajan R/o Alipur Road, Kolkatta (W.B.).
				1098/2	Private	Non- Agriculture Sansthanik	0.056	Sanawarmal Singhania Memorial Trust Jariye Trustee Sandeep Kumar S/o Shravan Kumar Agarwal caste Mahajan Sakin Omwali Mohalla Madangaj, Kishangarh.
				1111	Private	Agriculture Barani - 2	0.011	Kana S/o Ghinsa share 1/4, Baldev, Sharwan, Sanawarmal S/o Kajod share 1/4 caste Jat, Shri Ram s/o Bodu share 1/2 caste Kumhar sakin deh Khatedar.
				1110	Private	Agriculture Barani - 2	0.105	
				1109	Private	Agriculture Barani - 3	0.255	Lachha Ram S/o Maangu Ram caste Balai R/o Bajyavas Khatedar
				1085	Private	Agriculture Barani - 1	0.005	Ramlal S/o Gorishankar share 1/2 Kamla Devi W/o Jagdeesh Prasad, Hariprasad Omprakash, Kailash S/o Jagdeesh Prasad share 1/3, Vinod S/o Jagdeesh Prasad, Santara D/o Jagdeesh Prasad share 1/6 share equal caste Brahmin Sakin Deh Khaedar
				• Total Area		11.6439		

[F. No. NHAI/LA/ROJ/PIU-Reengus/NH-11/2013]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.